



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-17122024-259459  
CG-UP-E-17122024-259459

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5016]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946

No. 5016]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 14 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5423(अ).—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संसोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वाँ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4485 दिनांक 09 नवंबर, 2024 एवं 4528 दिनांक 12 नवंबर, 2024 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय [उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)] की अधिसूचना संख्या- का. आ. 4866(अ), दिनांक 07 नवंबर 2024 एवं का. आ. 4909(अ), दिनांक 11 नवंबर, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “प्रयागराज - कानपुर सेन्दूल लेवल क्रॉसिंग सं.-04 के स्थान पर किलोमीटर 838/7-9 पर बमरौली - मनौरी स्टेशनों के मध्य 02 लेन आर.ओ.बी. के निर्माण” परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन “दैनिक समाचार” पत्रों अर्थात् “अमर उजाला, प्रयागराज एवं टाइम्स ऑफ़ इंडिया, लखनऊ” में दिनांक 14, 16 एवं 17 नवंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया था;

और छः आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह की केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “प्रयागराज - कानपुर सेन्ट्रल लेवल क्रॉसिंग सं.-04 के स्थान पर किलोमीटर 838/7-9 पर बमरौली - मनौरी स्टेशनों के मध्य 02 लेन आर.ओ.बी. के निर्माण” के लिए प्रयागराज जनपद के सदर तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का विवरण।

क्र.स.	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हे0)	अर्जन हेतु रकबा (वर्ग मी0)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	वर्तमान खतौनी के अनुसार भू-स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			261	297 क	0.0122	122.00	अशासकीय	कृषि	अलाउद्दीन पुत्र आबिद अली नि0 एल0आई0जी0 192 कालीन्दीपुरम, राजरूपपुर। गुफरान हुसैन व जुल्फेकार हुसैन पुत्रगण इजहार हुसैन व श्रीमती शुल्ताना पत्नि इजहार हुसैन नि0ग्रा0। वसर अहमद/परवेज अहमद व शहाना बेगम/परवेज अहमद नि0ग्रा0। श्रीमती आषमा बेगम/तुफैल अहमद नि0 तुर्काना नई झूंसी फूलपुर।
			44	297ख			अशासकीय	कृषि	अलाउद्दीन पुत्र आबिद अली नि0 एल0आई0जी0 192 कालीन्दीपुरम, राजरूपपुर। अफताब अली पुत्र मो0 अली/स्थ0 व आबिद अली, तौफीक अहमद, तौहीद अहमद, फुजैल अहमद व महमूद अहमद पुत्रगण मकबूल अहमद व श्रीमती खुषनुदा बेगम पत्नि मकबूल अहमद

									नि0ग्रा0। महफुज अहमद पुत्र हैदर अली/स्था0। शमसाद अली पुत्र मो0 अली/स्था0। श्रीमती सुगगन देवी पत्नि नत्थू लाल नि0 अहमदपुर असरौली। श्रीमती सुग्गी देवी पत्नि पुन्न लाला नि0 अहमदपुर असरौली। श्रीमती सुमिन्तरा देवी पत्नि मुन्नीलाला नि0 अहमदपुर असरौली। साजिद अली पुत्र रमजान अली/स्था0। सायमा बेगम/मो0 जावेद नि0 सुरसैनी चायला कौषाम्बी। सुहैल अहमद/मकबूल अहमद नि0ग्रा0। हामीद अली पुत्र रमजान अली नि0ग्रा0।
2			304	293 मि	0.0100	100.00	अशासकीय	कृषि/ अकृषि	राजीव नन्दन/वृजनन्दन शर्मा/जे0पी0 कालोनी मन्दर रोड, इला0। अखीलेश पाण्डेय पुत्र दीनानाथ पाण्डेय नि0 टाउप ए-46 भोल टाउनशिप झाँसी।
			304	293क मि			अशासकीय	कृषि	राजीव नन्दन/वृजनन्दन शर्मा/जे0पी0 कालोनी मन्दर रोड, इला0। अखीलेश पाण्डेय पुत्र दीनानाथ पाण्डेय नि0 टाउप ए-46 भोल टाउनशिप झाँसी।
			237	293क मि			अशासकीय	कृषि	कमाल अहमद/निजामउद्दीन/ हनुमानगंज। दीनानाथ दूबे/हनुमान प्रसाद दूबे/नि0ग्राम तिवारी खरहरा पोस्ट नक्टी मिर्जापुर। नीलम मिश्रा/रमाशंकर मिश्रा/नि0ग्राम। मुन्ना/बजरंगीलाल/9 चक

3								मुण्डेरा। मुमताज अली/मो0 वसी/201 ई0डब्लू0एस0ए0डी0एम 0 कालोनी नीम सराय। अरूण कुमार पुत्र पन्ना लाल नि0ग्राम। रमेश चन्द्र मिश्र/हरिश्चन्द्र मिश्र/52 त्रिपोलिया रोड, इला0। रामफल/रामपाल/परसिद्ध पुर, तह0 खागा, जिला फतेहपुर। रामभवन सिंह/पृथ्वीराज सिंह/नि0ग्राम। श्रीमती उमा/दिलीप कुमार त्रिपाठी/अब्दुल वहाबपुर। शुशीला यादव/मनोज कुमार यादव/चकमुण्डेरा। शकुंतला मिश्रा पत्नी रमेश चंद्र सुशील पांडेय पत्नी दीनानाथ पांडेय ।	
			61	293क मि			अशासकीय	कृषि	ओंकारनाथ त्रिपाठी/अमरनाथ त्रिपाठी/नि0ग्राम।
			238	293ग मि			अशासकीय	कृषि	रवि सिंह/दिनेश प्रताप सिंह/नि0ग्राम। राम भवन सिंह/पृथ्वीराज सिंह/नि0ग्राम।
			05	288	0.0129	129.00	अशासकीय	कृषि	अनवर अहमद, गुलाम अहमद व शमशाद अहमद/मुमताज हुसैन/स्था0। श्रीमती सुर्मिला साह पत्नि सुरेश चन्द्र साह नि0 41के/6एल, जयन्तीपुर साकेत नगर। रविशंकर मिश्र/लवप्रसाद मिश्र/हुसैनपुर अहमदपुर पावन। कासिक पुत्र गुलाम साबिर ।
			योग		0.0351	351.00			
कुल योग					0.0351	351.00			

[ फा. सं. NCR-PRY JOENGG(LAND)/9/2023 O/O CPM/GSU/PRY]

जे. सी. चौरसिया, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/आरएसपी

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[North Central Railway (Gati Shakti Unit)]**

**NOTIFICATION**

Prayagraj, the 14th December, 2024

**S.O. 5423(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the ministry of Railways (North Central Railway, Gati Shakti Unit), Notification Number, S.O. 4866(E), dated 07 November, 2024 and S.O. 4909(E) published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification Number 4485, dated 09 November, 2024 and 4528 dated 12 November, 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11<sup>th</sup> of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely **“Prayagraj-Kanpur Central- Construction of 02 Lane ROB at km: 838/7-9 in lieu of level crossing no. 4 between Bamrauli – Manauri Stations”** in the District of Prayagraj in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Amar Ujala, Prayagraj & Times of India, Lucknow” dated 14, 16 & 17 November, 2024 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, Six nos. of objection was received and the same has been considered by the Competent authority accordingly order has been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely  
“Prayagraj-Kanpur Central- Construction of 02 Lane ROB at km: 838/7-9 in lieu of level crossing no. 4  
between Bamrauli – Manauri Stations” under Sadar Tehsil of Prayagraj District in the state of Uttar Pradesh.**

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Khata No.	Khasara No.	Area to be acquired in (Hect)	Area to be acquired in (Sqrm.)	Type of land	Nature of land	Name of present land owner as per Khatauni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2			261	297 क	0.0122	122.00	Pvt	Agriculture	Alauddin S/o Aabid Ali/Resident L.I.G 192, Kalindipuram, Razruppur. Gufran Husain & Julfekar Husain Sons of Izahar Husain & Smt Shultana W/o Izahar Husain/Resident Village. Vasar Ahemad/Parvej Ahemad & Sahana Begam/Parvej Ahemad/Resident Village. Smt. Ashama Begam/Tufail Ahemad/Resident Turkana New Jhunsu Foolpur.
			44	297ख					Alauddin S/o Aabid Ali/Resident L.I.G 192, Kalindipuram, Razruppur. Aftab Ali S/o Moh. Ali /Local. & Avid Ali Taufik Ahemad, Tauhid Ahemad, Fujail Ahemad & Mahemud Ahemad Sons of Makbul Ahemad & Smt. Khushnuda Begam W/o Makbul Ahemad, Resident Village. Mahfuz Ahemad S/o Saidar Ali/Local.

								Shamsad Ali S/o Moh. Ali/Local. Smt. Suggan zdevi W/o Natthu Lal, Resident of Ahemadpur Asrauli. Smt. Suggi Devi W/o Punnn Lal, Resident of Ahemadpur Asrauli. Smt. Sumintra Devi w/o Munni Lal, Resident of Ahemadpur Asrauli. Sajid Ali S/o Ramzan Ali/Local. Sayama Begam/Moh.Javed/Resident Sursaini, Chayala, Kaushambi. Suhail Ahemad/Makbul Ahemad/Resident Village. Hamid Ali S/o Ramzan Ali/Resident Village.	
3			304	293मि	0.0100	100.00	Pvt	Agri/Non Agri.	Rajeev Nandan/Briznandan Sharma/Resident of J.P Colony Mandar Road, Allahabad. Akhilesh Pandey S/o Dinanath Pandey, Resident of Taup A-46, Bhol Township Jhansi.
			304	293क मि			Pvt	Agriculture	Rajeev Nandan/Briznandan Sharma/Resident of J.P Colony Mandar Road, Allahabad. Akhilesh Pandey S/o Dinanath Pandey, Resident of Taup A-46, Bhol Township Jhansi.
			237	293क मि			Pvt	Agriculture	Kamaal Ahemad/Nizamuddin, Resident of Hanumanganj. Dinanath Dubey/Hanuman-Prasad Dubey, Resident Village- Tiwari Kharahara, post- Nakti Mirzapur. Neelam Mishra/Ramashankar Mishra, Resident-Village. Munna/Bajrangilal, Resident 9 Chak Mundera. Mumtaj Ali/Moh. Wasi, Resident of 201 E.W.S.A.D.M Colony Neem Saray. Arun Kumar S/o Panna Lal, Resident Village. Ramesh Chandra Mishra/ Harish Chandra Mishra, Resident of 52 Tripoliya Road Alla. Ramfal/ Rampal, Resident of prasadhhpur, Tehsil- khaga, Dist- Fatehpur Rambhavan Singh/Prithwiraj singh, Resident Village. Smt. Uma/Dilip Kumar Tripathi, Resident-Abdul Wahabpur. Shushila Yadav/Manoj kumar Yadav, Resident-Chak Mundera. Shakuntala Mishra W/o Ramesh Chandra. Susheela Pandey W/o Deenanath Pandey.
			61	293क मि			Pvt	Agriculture	Omkarnath Tripathi/ Amarnath Tripathi, Resident Village.
			238	293ग मि			Pvt	Agriculture	Ravi Singh/Dinesh Pratap Singh, Resident Village. Ram Bhavan Singh/Prithviraj Singh, Resident Village.
4			05	288	0.0129	129.00	Pvt	Agriculture	Anwar Ahamad, Gulam Ahamad & Shamsad Ahamad/ Mumtaj Husain, Local. Smt. Surmila Sah W/o Suresh Chandra Sah, Resident 41K/6L,

									Jayantipur, Saket Nagar. Ravishankar Mishra/ Loveprasad Mishra, Resident Husainpur, Ahamadpur Paawan. Kashik S/o Gulam Sabir
			<b>Total</b>	<b>0.0351</b>	<b>351.00</b>				
			<b>Grand Total</b>	<b>0.0351</b>	<b>351.00</b>				

[F. No. NCR-PRY JOENGG(LAND)/9/2023 O/O CPM/GSU/PRY]

J.C. CHAURASIA, Chief Administrative Officer (C) RSP